Form of Application for claiming refund of Medical expenses incurred in connection with medical attendance and / or treatment of Central Govt. Servants and their families

Servants and their families would be the present the servants and their families ध्यान दीजिए :- हर रोगी के लिए अलग फार्म भरा जाना चाहिए / N.B. - separate form should be used for each patient. सरकारी कर्मचारी का नाम और पद (साफ अक्षरों में) Name and designation of the Government servant (in block letters) विवाहित या अविवाहित / Whether Married or Unmarried यदि विवाहित हो तो, स्वामी/स्त्री का कर्मस्थल का पता (ii) If married the place where wife/husband is employed किस कार्यालय में काम कर रहा है / Office in which employed आधारमूल नियमों में वेतन की दी गई परिभाषा के अनुसार सरकारी कर्मचारी का वेतन, यदि अन्य कोई उपलिध्ययां हों तो उन्हे अलग से दिखाया जाना चाहिए / Pay of the Government servant as defined हातागढ़ गरी उंगर in the Fundamental Rules and any other emoluments which should be shown separately. 4. नौकरी का स्थान / Place of duty. निवास का वास्तविक पता / Actual residential address. 5. employed on the advice of the medical officer-in-charge of the cateful संबंध and to solve on the advice of the medical officer-in-charge of the cateful to solve on the advice of the medical officer in the cateful to solve on the cateful to solve Name of the patient and his / her relationship to the Government servant. To May 192 Mismurl 9/400 and to Izadast add ध्यान दीजिए :- यदि बीमार बच्चा हो तो उसकी उम्र भी लिखी जाए / N.B.—In the case of children state age also. रोगी किस स्थान पर बीमार पड़ा / Place at which the patient fell ill. दावे की रकम का ब्यौरा / Details of the amount claimed-8. डाक्टरी परिचर्या / MEDICAL ATTENDANCE -निम्नलिखित वातों का निर्देश करते हुए परामर्श का फीस / Fees for consultation indicating— (i) जिस चिकित्सा अधिकारी से परामर्श लिया गया है, उसका नाम और पद तथा उस अस्पताल (क) या औषधालय का नाम जिससे वह अधिकारी संवद्ध है। the name and designation of medical officer consulted and the hospital or (a) dispensary to which attached. The falls is the place of the property to which attached. The falls is the place of the plac कितनी बार और किस किस तारीखों को परामर्श लिया गया और हर परामर्श के कितनी कितनी फीस दी गई है। (ख) the number and dates of consultation and the fee paid for each consultation. (b) कितनी सुईयां किन किन तारीखों को लगी और हर सुई के लिए कितनी फीस देनी पड़ी। (11) the number and dates of injections and the fee paid for each injection. (c) क्या परामर्श और / या सुईयां अस्पताल में ली गई या चिकित्सा अधिकारी के परामर्श कक्ष में या रोगी के निवास स्थान पर। (घ) (d) Whether consultation and / or injections were held at the hospital, at the consulting room of the medical officer or at the residence of the patient. If silenos and land habitants have been been due to रोग का निदान करते समय किए गए विकृत वैज्ञानिक, जीवाणु-वैज्ञानिक, विकिरण-वैज्ञानिक और ऐसे ही (ii) दुसरे परीक्षण का खर्च लिखिए और निम्नलिखित बातें बतलाइए— 198 माराज MOITALLUZMOO (कार्य) के कार्यानी Charges for pathological, bacteriological, radiological or other similar tests undertaken की गई कींस और नीचे जिस्सी बात पतालाई जाएं Fees paid to a specialist or a medical officer or gnitaribni sisongain gnimb (क) अस्पताल या प्रयोगशाला का नाम जहां परीक्षा हुए और the name of the hospital or laboratory where the tests were undertaken, and (a) क्या वे परीक्षण प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर हुए, यदि हां तो उसका प्रमाण-पत्र इसके साथ लगाएं। (ख) whether the tests were undertaken on the advice of the authorised medical attendant. (b) If so, a certificate to that effect should be attach. बाजार से खरीदी गई दवाओं का मूल्य /(c) costs of medicines purchased from the market. (11) (दवाओं की सूची, नकद-पत्र ओर अत्यावश्यकता प्रमाण-पत्र साथ लगाए) (List of medicines, cash memos and the essentiality certificate should be attached) अस्पताली इलाज / Hospital treatment – पर अमिन काळा प्राथमिककळ असे १६ मिन होते हुए सामिक असे १६ मिन होते हुए समिन (11) अस्पताल का नाम / Name of the hospital. अस्पताली इलाज का खर्च-निम्नलिखत खर्चो वा अलग निर्देश कीजिए—
Charges for Hospital treatment indicating separately the charges for— (i) आवास का / Accommodation medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer (यह लिखे कि क्या आवास सरकारी कर्मचारी वे वर्तमान वेतन या हैसियत के अनुरुप ही था यदि नहीं, तो इस कार्या कार्यात कार्यात विकास आशय का एक प्रमाण-पत्र दें कि जिस प्रकार के आवास के लिए सरकारी कर्मचारी हकदार था यह उपलब्ध नहीं था।) (State whether it was according to the status or pay of the government servant and in case where the accommodation is higher than the status of the Government servant, a certificate should be attached the status of the Government servant, a certificate should be attached to the status of the Government servant. to the effect that the accommodation to which he was entitled was not available) (ii) शल्यकिया या डाक्टरी इलाज का परिरोख ^{9 वधा} YE GANDIZ वह OT MOITARA JOHG के प्रकार शिक्य पर प्रमाण पर (iii) Surgical operation or medical treatment of continement. विकृति वैज्ञानिक, जीवाणु-वैज्ञानिक, विकिरण-वैज्ञानिक क्या अन्य परीक्षण यह बातें भी बतलाई जाए (iv)

Pathological, bacteriological, radiological or other similar tests indicating-

अस्पताल या प्रयोगशाला का नाम जिसमें परीक्षण हुआ

the name of the hospital or laboratory at which undertaken.

(क)

(ख)	क्या वे परीक्षण कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी की सलाह से अस्पताल में हुए? यदि हां तो इस आशय का	
(G)	प्रमाण-पत्र साथ लगाएं। d blands mol opposes . H. M. प्रकार मार्ग एक मार्ग मार्ग मार्ग के कि कि मार्ग के कि प्र	
(b)	Whether undertaken on the advice of the medical officer in charge of the case at the hospital.	
(-)	If so, certificate to that effect should be attached.	
(v)	दवाएं / Medicines	
(vi)	विशेष दवाएं / Special medicines	
	(दवाओं का सूचा नकद-पत्र और अत्यावश्यकता प्रमाण-पत्र मी लगाए)	
-	(List of medicines, cash memos and the essentiality certificate should be attached)	
(vii)	साधारण उपचर्या / Ordinary nursing	
(viii)	विशेष लपचर्या यानी रोगी के लिए विशेष रूप से नर्स लगाई गई। यह लिखे कि जो और नर्स लगाई गई	
	उसके लिए अस्पताल में इनके कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी ने सलाह दी थी या सरकारी कर्मचारी चिकित्सा	
	या रागा का पश्चना पर निरायत का गर्दा पहला बाला एंगात होने पर कार्यमारा जिल्ला स्थानिकार का पामा	
-	गर्न मार्ग में त्यामा जाना चारिए दिया पर निकित्ता अधीरक के प्रतिसम्बद्धा भी ने।	
	Special nursing i.e., nurses, specially engaged for the patient. State whether they were	
	employed on the advice of the medical officer-in-charge of the case at the hospital or at	
	the request of the Government servant or patient. In the former case, a certificate from the medical officer-in-charge of the case countersigned by the Medical	
	Superintendent of the hospital should be attached.	
(ix)	The Heat treatien and doubt to action of the First training to the party of the par	
,	एम्बूलेंस खर्च (कहां से कहां तक यात्रा की गई यह लिखें) Ambulance charges (State the Journey—to and from undertaken)	
(x)	और दुसरे खर्च यानी बिजली की रोशनी, पंखा, हीटर, वातानुकुलन आदि के खर्च। यह भी लिखें कि वे सुविधाएं साधारणतः सभी र	han
	को दी जाती है ओर रोगी की विशेष चुनाव पर कोई चीज नहीं दी गई/Any other charges for electric light fan, h	
	airconditioning etc. State also whether the facilities normally provided to all patients and no choice was left to the pati	
00	10 strate of the control of the cont	
ICMIN	ायां 1. यदि केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1944 के नियम 7 के [रुल 7 आफ दी सी० एस० (एम० ए०) रुल्स । के अनुसार यदि इलाज सरकारी कर्मचारी के निवास स्थान पर ही हुआ हो तो उसका विवरण में और उस नियमों के अ	
	अपेक्षित चिकित्सा परिचारक का प्रमाण-पत्र साथ लगाएं। साम हा कि एक प्रमाण कि कि कि प्रकार कि प्रमाण-पत्र	
Notes	if the treatment was received by the Government servant at his residence under rule 7 of the C.S. (M.A.) Rules	1944
	give particulars of such treatment and attach a certificate from the medical attendant as required by this rule.	(H)
	2. यदि इलाज सरकारी अस्पताल के अलावा किसी और हुआं है तो उसका आवश्यक विवरण दें और प्राधिकृत चिकित्सा क	1 इस
	आशय का प्रमाण पत्र दें कि अपेक्षित इलाज की व्यवस्था किसी निकटतम सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकती थी। If treatment was received at hospital other than a Government Hospital necessary details and the Certificate of	f the
	authorised medical attendant that the requisite treatment was not available in any nearest Government hospital sh	
	be furnished.	
(iii)	विशेषज्ञ के परामर्श / CONSULTATION WITH SPECIALIST— काजीकी एक प्रकारित किए कि विशेषज्ञ	
	प्राधिकृत-चिकित्सा-परिचारक के अतिरिक्त किसी और विशेषज्ञ या चिकित्सा आधिकारी का परामर्श लेने के लिए	
	दी गई फीस और नीचे लिखी बातें बतलाई जाएं/Fees paid to a specialist or a medical officer other spinion eigenvalue	
	than the authorised medical attendant indicating—	
(ক)	उस विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी का नाम जिसका परामर्श लिया गया है और वह विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी	
	किस अस्पताल से संबंधित है। अस्त्र के किस किस के किस किस के किस कि	
(a)	The name and designation of the specialist or medical officer consulted and the hospital to	
	which attached	
(ख)	कितनी बार और किन किन तारीखों को परामर्श लिया गया और हर परामर्श के लिए कितनी फीस दी गई?	
(b)	Number and dates of consultation and the fee charged for each consultation.	
(刊)	क्या परामर्श विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी के परामर्श कक्ष में लिया गया था, अस्पताल में अथवा रोगी के निवास पर। semiological	
	Whether consultation was held at the hospital, at the consulting room of the specialist or the special	
(c)	medical officer or at the recidence of the nationt	
(c)	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य	
(c) (ਬ)	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य	
	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य	
(c) (घ)	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति इसके लिए प्राप्त कर ली गई थी। यदि हां तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगाएं। Whether the specialist or medical officer was consulted on the advice of the authorised medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer of the	
(c) (घ) (d)	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति इसके लिए प्राप्त कर ली गई थी। यदि हां तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगाएं। Whether the specialist or medical officer was consulted on the advice of the authorised medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer of the State was obtained. If so, a certificate to that effect should be attached.	
(c) (ਬ) (d)	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति इसके लिए प्राप्त कर ली गई थी। यदि हां तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगाएं। Whether the specialist or medical officer was consulted on the advice of the authorised medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer of the State was obtained. If so, a certificate to that effect should be attached. कुल कितनी धनराशि का दावा है/Total amount claimed कुल कितनी धनराशि का दावा है/Total amount claimed	
(c) (घ) (d)	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति इसके लिए प्राप्त कर ली गई थी। यदि हां तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगाएं। Whether the specialist or medical officer was consulted on the advice of the authorised medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer of the State was obtained. If so, a certificate to that effect should be attached. कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed के दिया गया अग्रिम / Less advance taken as	
(ta) (d) (d)	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति इसके लिए प्राप्त कर ली गई थी। यदि हां तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगाएं। Whether the specialist or medical officer was consulted on the advice of the authorised medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer of the State was obtained. If so, a certificate to that effect should be attached. कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed कुल रुकम / Net amount claimed	
(c) (国) (d) (d) (10. 11.	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति इसके लिए प्राप्त कर ली गई थी। यदि हां तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगाएं। Whether the specialist or medical officer was consulted on the advice of the authorised medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer of the State was obtained. If so, a certificate to that effect should be attached. कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed को दिया गया अग्रिम / Less advance taken as रु०/Rs. दावे की कुल रकम / Net amount claimed रु०/Rs. परिवेष्टन की सूची / List of Enclosures	
(c) (घ) (d) 9. 10. 11. 12.	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति इसके लिए प्राप्त कर ली गई थी। यदि हां तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगाएं। Whether the specialist or medical officer was consulted on the advice of the authorised medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer of the State was obtained. If so, a certificate to that effect should be attached. कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed को दिया गया अग्रिम / Less advance taken as रु०/Rs. दावे की कुल रकम / Net amount claimed एर०/Rs. परिवेष्टन की सूची / List of Enclosures	(i)
(c) (घ) (d) 9. 10. 11. 12. इस घोष	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति इसके लिए प्राप्त कर ली गई थी। यदि हां तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगाएं। Whether the specialist or medical officer was consulted on the advice of the authorised medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer of the State was obtained. If so, a certificate to that effect should be attached. कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed कुल रकम / Net amount claimed कुल स्वी / List of Enclosures	किए
(c) (E) (d) (d) (d) (10. 11. 12. (e) (e) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति इसके लिए प्राप्त कर ली गई थी। यदि हां तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगाएं। Whether the specialist or medical officer was consulted on the advice of the authorised medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer of the State was obtained. If so, a certificate to that effect should be attached. कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed कुल रिया गया अग्रिम / Less advance taken as कि दिया गया अग्रिम / Less advance taken as कि कुल रकम / Net amount claimed एरिकेप्टन की सूची / List of Enclosures परिकेप्टन की सूची / List of Enclosures परिकेप्टन की इस्ताक्षर करे DECLARATION TO BE SIGNED BY THE GOVERNMENT SERVANT कि करता हूं कि इस प्रार्थना-पत्र में दिया वयान जानकारी विश्वास के अनुसार ठीक है और जिस व्यक्ति के ऊपर चिकित्सा व्यव वह पूर्णतः मेरे ऊपर आश्रित है / I hereby declare that the statements in this application are true to the best my knowledge	किए
(c) (E) (d) (d) (d) (10. 11. 12. (e) (e) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति इसके लिए प्राप्त कर ली गई थी। यदि हां तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगाएं। Whether the specialist or medical officer was consulted on the advice of the authorised medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer of the State was obtained. If so, a certificate to that effect should be attached. कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed कुल रिया गया अग्रिम / Less advance taken as कि दिया गया अग्रिम / Less advance taken as कि कुल रकम / Net amount claimed एरिकेप्टन की सूची / List of Enclosures परिकेप्टन की सूची / List of Enclosures परिकेप्टन की इस्ताक्षर करे DECLARATION TO BE SIGNED BY THE GOVERNMENT SERVANT कि करता हूं कि इस प्रार्थना-पत्र में दिया वयान जानकारी विश्वास के अनुसार ठीक है और जिस व्यक्ति के ऊपर चिकित्सा व्यव वह पूर्णतः मेरे ऊपर आश्रित है / I hereby declare that the statements in this application are true to the best my knowledge	किए
(c) (घ) (d) 9. 110. 112. इस घोषि ग्रंथ है,	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति इसके लिए प्राप्त कर ली गई थी। यदि हां तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगाएं। Whether the specialist or medical officer was consulted on the advice of the authorised medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer of the State was obtained. If so, a certificate to that effect should be attached. कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed कo/Rs. ———————————————————————————————————	किए
(c) (घ) (d) 9. 110. 112. इस घोषि ग्रंथ है,	medical officer or at the residence of the patient. क्या विशेषज्ञ या चिकित्सा-अधिकारी की सलाह प्राधिकृत चिकित्सा-परिचारक की राय से ली गई थी और क्या प्रान्त के मुख्य प्रशासनिक-चिकित्सा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति इसके लिए प्राप्त कर ली गई थी। यदि हां तो इसके लिए प्रमाण-पत्र लगाएं। Whether the specialist or medical officer was consulted on the advice of the authorised medical attendant and the prior approval of the Chief Administrative Medical Officer of the State was obtained. If so, a certificate to that effect should be attached. कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed कुल कितनी धनराशि का दावा है / Total amount claimed कुल रिया गया अग्रिम / Less advance taken as कि दिया गया अग्रिम / Less advance taken as कि कुल रकम / Net amount claimed एरिकेप्टन की सूची / List of Enclosures परिकेप्टन की सूची / List of Enclosures परिकेप्टन की इस्ताक्षर करे DECLARATION TO BE SIGNED BY THE GOVERNMENT SERVANT कि करता हूं कि इस प्रार्थना-पत्र में दिया वयान जानकारी विश्वास के अनुसार ठीक है और जिस व्यक्ति के ऊपर चिकित्सा व्यव वह पूर्णतः मेरे ऊपर आश्रित है / I hereby declare that the statements in this application are true to the best my knowledge	किए and